

**POST GRADUATE DIPLOMA IN
INTERNATIONAL BUSINESS
OPERATIONS/MASTER OF
COMMERCE (PGDIBO/M. COM.)**

Term-End Examination

December, 2024

IBO-06 : INTERNATIONAL BUSINESS FINANCE

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

Note : Attempt any *five* questions.

1. Why was European Monetary System created ?
Discuss the features and exchange rate
mechanism of European monetary system.
What were the reasons of its collapse ? Discuss
in detail. 2+10+8

2. Discuss various international debt instruments
for raising finance with the help of suitable
examples. 20

3. (a) What is prime lending rate ? Explain *two* basic approaches to loan pricing. 4+8
- (b) Explain the functions of Society for Worldwide Interbank Financial Communication (SWIFT). 8
4. (a) State the short-term and long-term strategies of forecasting of exchange rates. 10
- (b) Explain the theory of purchasing power parity. What important message does it bear ? 10
5. (a) What is currency risk ? What are the different types of currency risks ? Why is there a need to manage currency risk ? 3+7+5
- (b) Explain and illustrate currency swap. 5
6. What is transaction exposure ? Describe forward market hedge and money market hedge techniques of managing transaction exposure. Contrast the forward market hedge and money market hedge. 4+10+6

7. Explain in detail the different methods of managing political risk with the help of suitable examples. 20
8. (a) Discuss the factors which influence the design of world-wide corporate capital structure. 10
- (b) Discuss the advantages of centralised cash management. 10
9. Write explanatory notes on any *two* of the following : 10+10
- (a) Project export financing
- (b) Special documents in International Trade
- (c) Issues in International project appraisal
- (d) Economic exposure

IBO-06

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रचालन में स्नातकोत्तर

डिप्लोमा/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि

(पी.जी.डी.आई.बी.ओ./एम. कॉम.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2024

आई.बी.ओ.-06 : अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय वित्त

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. यूरोपियन मौद्रिक प्रणाली को क्यों बनाया गया था ?

यूरोपियन मौद्रिक प्रणाली की विशेषताओं तथा विनिमय

दर प्रणाली की चर्चा कीजिए। इस प्रणाली के समाप्त

होने के क्या कारण थे ? विस्तार से वर्णन कीजिए।

2+10+8

2. वित्त जुटाने के लिए विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रपत्रों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 20
3. (क) मूल उधार दर क्या होती है ? ऋण मूल्य निर्धारण के दो मूल दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। 4+8
- (ख) विश्वव्यापी अंतरबैंक वित्तीय दूरसंचार के लिए सोसाइटी (SWIFT) के कार्यों का वर्णन कीजिए। 8
4. (क) विनिमय दरों के पूर्वानुमान की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। 10
- (ख) क्रय शक्ति समता सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। यह क्या महत्वपूर्ण संदेश देती है ? 10
5. (क) मुद्रा जोखिम क्या होता है ? विभिन्न प्रकार के मुद्रा जोखिम कौन-कौन से हैं ? मुद्रा जोखिमों का प्रबन्ध करने की आवश्यकता क्यों होती है ? 3+7+5

(ख) मुद्रा स्वैप का उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए। 5

6. लेन-देन एक्सपोजर क्या होता है ? वायदा बाजार हेज तथा मुद्रा बाजार हेज, जो लेन-देन एक्सपोजर का प्रबंध करने की तकनीकें हैं, उनका वर्णन कीजिए। वायदा बाजार हेज तथा मुद्रा बाजार हेज के बीच अन्तर कीजिए। 4+10+6

7. राजनीतिक जोखिम के प्रबंध की विभिन्न तकनीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उचित उदाहरण भी दीजिए। 20

8. (क) विश्वव्यापी कॉर्पोरेट पूँजी संरचना के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। 10

(ख) केन्द्रीकृत रोकड़ प्रबंध के लाभों की चर्चा कीजिए। 10

9. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विस्तारपूर्वक टिप्पणियाँ

लिखिए :

10+10

(क) परियोजना निर्यात वित्तीयन

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष प्रलेख

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना समीक्षा में मुद्दे

(घ) आर्थिक एक्सपोजर

× × × × × × ×